



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आषाढ़ 1944 (श10)
(सं0 पटना 517) पटना, सोमवार, 18 जुलाई 2022

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना
17 जून 2022

सं० 10 न०वि०/विविध-54/2021-1635/न०वि०एवंआ०वि०—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 1001 दिनांक 03.03.2021 द्वारा दरभंगा जिलान्तर्गत नगर पंचायत घनश्यामपुर का गठन किया गया है। बिहार के राज्यपाल उक्त अधिसूचना को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले दरभंगा जिलान्तर्गत कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या 67 दिनांक 05.01.2022 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत घनश्यामपुर का क्षेत्र संशोधित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :-

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित क्षेत्रों/ग्रामों का नाम एवं थाना संख्या	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	प्रस्तावित नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं० सहित)	प्रस्तावित नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1	नगर पंचायत घनश्यामपुर	पाली-397 घनश्यामपुर-395 छींट बुढ़ेव-394 फकीरना-396	पाली (पूर्ण भाग), घनश्यामपुर (आंशिक) एवं बुढ़ेव इनायतपुर (आंशिक)	उत्तर-पोहद्दी-347 दक्षिण-महथवार-398 पूरब-फैजलापुर बाउर-393 पश्चिम-अजरकवे हरद्वार-346	20005

2. इस क्षेत्र को नगर पंचायत घनश्यामपुर कहा जायेगा।
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।
4. अधिसूचना संख्या 1001 दिनांक 03.03.2021 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम सेवक प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 517-571+200-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>